

Department of Corporate Services 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001

BSE Scrip Code-534060

<u>Sub: Public Notice & Newspaper Advertisement – 38th AGM of the Company to be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on September 14, 2023.</u>

Dear Sir/Madam,

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide its circular no. 10/2022 dated December 28, 2022 read together with circular nos. 20/2020, 21/2021 and 02/2022 dated May 5, 2020, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted convening the Annual General Meeting ("AGM") due in the Year 2023 through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, Thirty Eight (38th) Annual General Meeting (AGM) of PMC Fincorp Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 14, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OVAM) in compliance with aforesaid Circulars and applicable SEBI circulars.

In terms of the said circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Company has given public notice by way of advertisement in newspapers viz: "Financial Express" in English language and "Jansatta" in Hindi language published on August 18, 2023 informing about 38th AGM of the Company and other details as per said MCA circular. In terms of the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of following newspaper publications published on August 18, 2023:

- 1. Financial Express in English Language
- 2. Jansatta in Hindi Language

The Newspaper advertisements can also be accessed at the website of the Company i.e. www.pmcfincorp.com

You are requested to kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For PMC Fincorp Limited

Kailash

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No.: A51199

Encl: A/a

Tel.: 011-47631025, 26, 27 E-mail: contact@pmcfincorp.com Regd. Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, U.P.-244901 & Date of NPA

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201005

A/C No: DL/MTG/MTNG/A000000069

Landmark DVM Public School, Greater

Mrs. Lalita & Mr. Amit Soni, both at: GF-

Gali No. 5, Rajbala Enclave, Modinagar

A/C No: DL/KRB/KRBH/A000000450 Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Mr. Nikhil Kumar Jain & Mrs. Shilpi Jain,

both at: F-69, Third Floor, Lajpat Nagar-1

A/C No: DL/BDP/BDRP/A000000136

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Mr. Rabinder Singh, Mr. Avdesh Singh &

Mr. Rajani, All at: Plot No 22 and 23 Vatika

Kunj, Baba Mohan Ram Mandir Bhondsi

A/C No: DL/UTM/UTTM/A000000152

& CO/CPC/CPOF/A000000331

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Aadesh Chandila, All at: H.no. 677

Ground Floor Face 2 Near Omaxe Club

A/C No: HR/GGN/FRBD/A000000869 &

CO/CPC/CPOF/A000000401

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Mr. Rajinder Prasad & Mrs. Pushpa Devi,

both at: A-77, Deepak Vihar, Gali No 4

A/C No: DL/DLS/DLSD/A000000082

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Mr. Satbir, Mrs. Manju, both at:

Residence Cum Office, Village Bhuapur,

Faridabad, Faridabad, Metro, Faridabad,

A/C No: DL/RJP/RJPC/A000000008

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

at: C-13, Sector-53, Gautam Buddha

A/C No: DL/MTG/MTNG/A000000143

& DL/MTG/MTNG/A000000387

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Singh, both at: khasra No. 554, Third

Floor, Rajbala Enclave, Vill-Fafrana,

Modinagar, Rajbala Enclave, Uttar

A/C No: DL/KRB/KRBH/A000000431

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Choudhary, both at: 226/3 Khanpur

Mrs. Anguri Devi, 226 Khanpur Village.

A/C No: DL/UTM/UTTM/A000000091

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

Mr. Vikas Khanna & Mrs. Asha Khanna,

both at: B36 Shekhar Apartments Mayur

A/C No: DL/RJP/RJPC/A000000158

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2023

under the SARFAESI Act.

Dated: 17-08-2023, Place: Delhi

financialen epas.in

Vihar Extension East Delhi Delhi - 110091

17 Mr. Susheel Kumar & Mr. Rohan

Gaon, Delhi, Delhi, India - 110062

Sangam Vihar, Delhi, India - 110062

16 Mr. Suraj Singh & Mrs. Anamika Suraj

Pradesh, India - 201204

15 Mr. Shreepal Singh & Mrs. Geeta, both

Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301

Haryana, India - 121101

Vikas Nagar, Uttam Nagar Delhi - 110059

Omexe City Palwal, Haryana, India

12 Mr. Rahul Sardana, Mrs. Varsha & Mr.

121102

Mohali, Punjab, India - 122102

South Delhi, Metro, Delhi, India - 110024

Uttar Pradesh, India - 201204

5

6



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED HINDUJA HOUSING FINANCE 418, 4th Floor, Pearl Omaxe Tower-2, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi 110034

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

In respect of loans availed by below mentioned borrowers / quarantors through HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledge due to you which has been returned undelivered acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your facilure to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-Demand Notice Date Name of Borrowers/Guarantors Details of Secured

Amount Outstanding

Assets

Plot No.B-57, Block-B, Shyampark Extn.

Hadbast, Village Jagola, District Ghaziabad, U.P.

Bounded as: East - Plot No.8-58, West -Plot No. B-

Situated in village Kuleshra, Pargana Dadri,

1	Mrs. Anshika Pandey & Mr. Utkarsh Pandey, both at: B5/52C Dhawal Giri	Demand Notice Dated 11-07-2023	Residential flat number 52-C area measuring – 50.42 SQ Meter, having total Super/Covered area		
	Apartments Sec-34 Noida Gautam Budh Nagar-201301 U.P.	Amount Outstanding ₹ 36,79,046/-	of 67.10 sq.mtrs, 2nd Floor, Type Dhawalgir situated in block - B-5, sector - 34, Noida		
	A/C No: DL/UTM/UTTM/A000000114 & CO/CPC/CPOF/A000000277 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2023	as on 10-07-2023 + interest + legal Charges	Gautam Budh Nagar, UP, Bounded as: East - B- 5/51-C, Sector - 34, West -B-5/53-C, Sector-34, North - Open Space, South - Open Space		
2	Mr. Anupam Sharma & Mrs. Sumitra, both at: B-131, 1st Floor, Ashok Nagar,	Demand Notice Dated 11-07-2023	Residential Flat/Plot No 6 and 7, total area measuring 150 sq. yards, i.e 125.41, sq. mtr, in		
	Near Sukkar Bazar Chowk, Shahdra, Nand Nagari, Delhi, Shahdra, Delhi-110093	Amount Outstanding ₹ 25,31,767/-	khasra No. 2041, situated in Krishna Vihar, Village Hadbast Bhata Hajipur, Pargana and Tehsil Loni		
	A/C No: DL/DEL/DLHI/A000000520 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2023	as on 11-07-2023 + interest + legal Charges	& District Ghaziabad, U.P., Bounded as: East Other's Plot, West -Other's Plot, North -Other's Plot South - Road 30 Feet wide		
3	Mr. Ashu & Mrs. Jyoti, both at: Maharani Enclave, Hastal GAO, Som Bajar Road Landmark Baby Model School Gali No 7, Uttam Nagar, New Delhi 110059	Demand Notice Dated 13-07-2023	Built up 3rd Floor, bearing Private Unit No. TF- 301, with Roof/Terrace Rights, Built on Property		
		Amount Outstanding ₹ 18,76,357/-	bearing No.30 & 31(Unit-A), Area measuring 5 sq. yards (i.e.41.81 Square Meters, out of tot		
	A/C No: DL/DLS/DLSD/A000000046 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2023	as on 11-07-2023 + interest + legal Charges	area 200 Sq. Yards, out of Khasra No. 56/3/1, Village Hastsal, Maharani Enclave, Vikas Nagar, Block-B, Uttam Nagar, New Delhi-110059, Bounded as: East - Road 25 ft, West -Plot No. 43, North -Property No.29, South - Road 15 ft		
4	Mr. Atul Kumar Singh & Mr. Vidhyottma Singh, both at: 49/2 Railway Road Near	Demand Notice Dated 13-07-2023	Residential Flat No. S-3, On Second Floor, (Backside) LIG, with Roof rights, covered area		
	Shiv Mandir Rajeev Colony, Sahibabad	Amount Outstanding	36.62 Sq.Metres, i.e., 45 Sq.Yds, Built on freehold		

₹ 17.71,466/-

as on 11-07-2023

	Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2023	+ interest + legal Charges	56, North -Road 40 Ft.Wide, South - Service Lane 10 Ft.Wide		
100	Mr. Deepak, Mrs. Kajal & Mr. Balraj, All at: House No 257 Village Jasana 110,	Demand Notice Dated 11-07-2023	Plot area measuring 808 sq. Yads out of arazi khewat no. 298 khatoni no.337 mustail no. 7 killa no. 9/1(2-8), 12/2(2-18),13/2(5-16) 19/1(4- 10),22/1/2(0-19),22/2(2-17) mustatil no. 8 killa no.		
	Badarpur Syed, Metro, Faridabad, Haryana, India - 121101	Amount Outstanding ₹ 38,79,084/-			
	A/C No: DL/UTM/UTTM/A000000096 & CO/CPC/CPOF/A000000532 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2023	as on 10-07-2023 + interest + legal Charges	16(0-2) mustatil no. 9 killa no./1(0-6) 2/1(4-10),9/2(4-17) 10(2-6), 11(4-5),12/1(4-17) 19/2 (4-17),20(6-8) kita 15 rakba 51 kanal 16 marle situated at jasana tehsil tigaon district faridabad. Bounded as: East-Plot of Dharam, West-Rasta, North-Plot of Pradeep khanpur, South-Dairy of Balraj		
- Committee	Mr. Deepak Sharma & Mrs. Hema Sharma, both at: Resi Plot No 32, Ground	Demand Notice Dated 11-07-2023	Pvt. Flat no. TF-302, 3rd floor, without roof right, built up on portion of property no. 1&2, Tower –D,		
	Floor, Gali No. 21, Phase 1, Om Vihar Uttam Nagar New Delhi 110059, Back Side of Aryan School, Uttam Nagar New Delhi, Metro, New Delhi, Delhi, India - 110059	Amount Outstanding ₹ 24,55,691/- as on 11-07-2023 + interest + legal Charges	area measuring 55 sq. Yards, (i.e, 45.98 sqar mtrs) out of total area measuring 220 Squar yards, out of khasra no.65/20, Hastsal, Delh Pratap Enclave, Mohan Garden, Uttam Naga		
	A/C No: DL/DLS/DLSD/A000000116 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2023		New Delhi, 110059. Bounded as: East - Road 15 Feet, West - Private No TF-303, North - Road 12 Feet, South - Private No TF-301		
	Mr. Dinesh Sharma & Mr. Lokesh Sharma, both at: Village Kulesra,	Demand Notice Dated 11-07-2023	One Kita residential Plot, total Area measuring 160 Sq. Yards, i.e 133.77 sq mtrs, in Khet no. 535,		

	Noida, Gautam Buddha Nagar UP-201306	₹ 29,77,417/-	77 417/- Tehsil and District Gautambudh Nagar, U.		
	A/C No: DL/RJP/RJPC/A000000025 & CO/CPC/CPOF/A000000552 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2023	as on 11-07-2023 + interest + legal Charges	Bounded as: East - Dharminder's Property, West - Rasta 20 foot wide, North - Other's Property, South - House of Shreepal		
CHOCK!	Mr. Indranil Bhattacharyah & Mrs. Chandrani Bhattacherjeh, both at: 2/81	Demand Notice Dated 11-07-2023	Upper Ground Floor, area measuring 60 Sq. yards, without Roof and Terrace Rights, out of		
	Upper Ground Floor Mahavir Enclave Bengali Colony Palam Village, South West Delhi, Delhi, India - 110045	Amount Outstanding ₹ 26,67,683/- as on 11-07-2023	Property bearing no. H-2/81A, out of khasra no. 79/23, situated in the area of village Palam, in the abadi of Mahavir Enclave, New Delhi 110045,		
	A/C No: DL/MTG/MTNG/A000000151 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-05-2023	+ interest + legal Charges	Bounded as: East - Road, West -Other's Property, North -Other's Property, South - Nala		

Amount Outstanding

₹ 32,78,989/-

as on 10-07-2023

11-07-2023

13-07-2023

₹ 19,47,314/-

as on 11-07-2023

11-07-2023

₹ 25,92,900/-

11-07-2023

₹ 57,91,533/-

13-07-2023

11-07-2023

Amount Outstanding

₹ 72,85,855/-

as on 10-07-2023

Demand Notice Dated

13-07-2023

Amount Outstanding

₹ 19.22,939/-

as on 11-07-2023

+ interest + legal Charges

(2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action

Amount Outstanding

	North -Other's Property, South - Naia		
Demand Notice Dated	Flat No.FF-2, First Floor, LHS unit (without Roo		
13-07-2023	Rights) area measuring 75 Sq. yards,i.e. 62.71 Sq		
Amount Outstanding ₹ 19,26,538/- as on 11-07-2023 + interest + legal Charges	Meters, part of Khasra No. 554 Min, Maru Mohalfa, Rajbala Enclave, Village Fafrana Pargana Jalalabad, Tehsil-Modinagar, Distric Ghaziabad, Bounded as:, East - Property of Sudhir West -Road 20 ft. wide, North -Plot of Shakuntla South - other Plot		
Demand Notice Dated	Flat on Second Floor (without roof rights), area		
11-07-2023	measuring 57.50 Sq. Yards., i.e., 48.07 Sq. Mtrs, a		

+ interest + legal Charges Demand Notice Dated A Property/House/Plot area measuring 200 sq yards comprised in Khewat No 821, Khata No 965, & 966, Mustkil No 150, Killa No 19/2/2 (0-2), 20/1 (4-Amount Outstanding Kitta 2 Rakba 4 Kanal 2 Marla Share 60/738. ₹ 55,62,574/-That is rakba 0 kanal 6 marla 6 sarsai. Total land is as on 10-07-2023 200 sq yards. Waka Moja Bhondsi, Tehsil Sohna, + interest + legal Charges District Gurugram Haryana, Bounded as: East - 43 Feet Road, West - 43 Feet, Other's Property, North 42 Feet, Other's Property, South - 42 Feet Road

part of DDA Freehold Built-up Property Bearing

No. A-36, situated in the layout plan of Block-A,

Jhilmil Colony illaga Shahdara, Delhi-110095.

One House Bearing Nagar Parishad Palwal Demand Notice Dated Property No. B2/152/221, Colony Code No. 11-07-2023 8/04/321, Out of Mu. No. 163, Kila No. 8/2 (2-14), Amount Outstanding Area Measurimng 110 Sq. Yards, Situated in ₹ 24.67.229/-Mouja: Palwal, Sallagarh, Under Nagar Parishad as on 11-07-2023 Palwal, Tehsil & District: Palwal Haryana, interest + legal Charges Bounded as: East - House of Mrs. Parmali, West Rasta 18 ft. Wide, North -House of yadram, South House of Ramfal Demand Notice Dated

Built up First Floor (Back RHS) without Roof/Terrace Rights, built on portion of property bearing no.17, with proportionate area Amount Outstanding measuring 50 sq. yards (i.e., 41.81 Sq. Meters) out of total area of 250, Sq. Yards, out of Khasra No. 79/10, Village Hastsal, Nawada Extension, Near + interest + legal Charges Roop Vihar, Om Vihar, Phase-V. Uttam Nagar, New Delhi, 110059, Bounded as: East - Property No. 18 West-Portion of Property, North -Road 15 Feet South - Portion of Property

Khewat no. 160 Khatooni no. 266, Mustkil no. 11 Demand Notice Dated Killa no. 4(8-0), 7(8-0), 7/14(4-0), Mustkil no. 12, Kila no. 7/2(0-17), 13/2(5-0), 18/1(2-17) Kita 7 **Amount Outstanding** Rakba 36 kanal 14 Marla Part 4 Kanal 14 Marla. Area Measuring 600 Sq. Yards, situated in Mauja as on 11-07-2023 Bhesrawali Sub-Tehsil Dayalpur District + interest + legal Charges Faridabad, Haryana., Bounded as: East - House of Dev Karan, West -22 Foot Rasta, North - House of Mr. Rajkumar, South - House of Mr. Ratiram

Residential /vacant Plot no. 13, Block-C, area Demand Notice Dated measuring 112.50 Sq. Meters, situated at Sector-53, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. Amount Outstanding Bounded as: East - Road 12,00 Meters wide, West -C-20, North - C-14, South - C-12 as on 11-07-2023 + interest + legal Charges

Flat No. TF-II. Third Floor with Roof/Terrace Demand Notice Dated Rights, area measuring 75 Sq. Yards (i.e., 62.71 Sq. Meters), Part of Khasra Number 554 min., Amount Outstanding situated at Vake Village Fafrana, Maruf Mohalla, ₹ 19,59,913/-Rajbala Enclave Colony, Pargana Jalalabad, as on 11-07-2023 Tehsil Modinagar, District Ghaziabad, Uttar + interest + legal Charges Pradesh, Bounded as:, East - Property of Sudhir West -Road 20 ft. wide, North -Other's Property. South - Other's Property

Demand Notice Dated Entire Built up Property bearing no. 226, measuring 150 Sq. Yads Out of total 250 Sq. Yards Part of khasra no. 439/2 situated in the extended abadi under Lal Dora of village khanpur Tehsil Hauz Khas New Delhi- 110062 + interest + legal Charges

Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Residential House/Villa No.21, Block-C, Part -2, Krishna Enclave, Khasra No. 486, area measuring 60 Sq. Yards. (i.e, 50.16 Sq Metres), Village-Sunpura Sohanpur, Pargana, Tehsil- Dadri, District- Gautam Budh Nagar, UP, Bounded as:, East - House No. 28, West -Road 18 Ft Wide, North -Plot No-20. South - Other's Plot The above mentioned Borrowers / Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and

Place: Jaipur Date: 17th August, 2023

Under Rule 8 (1) WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the

Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

POSSESSION NOTICE

Chola Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [8] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made there under. The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and

any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

SL NO	NAME AND ADDRESS OF APPLICANT & LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE OF DEMAND NOTICE	OUTSTANDING AMOUNT	DETAILS OF PROPERTY POSSESSED	DATE OF POSSESSION
[A] 1.	[8] Loan A/c No. X0HEDHE00001073521 & X0HEDHE00001251815) 1. SANDEEP KUMAR 2. HEMLATA 3. SUNITA DEVI 4. SUNIL KUMAR All Above At: C-1/48 GALI NO-19 KHAJOORI KHAS, NEW DELHI - 110094	05.10.2020	Rs. 1,00,06,909.25/- as on 28.02.2020	Property No. C-280, & New No. C-1/48, area measuring 100 Sq.yds out of Khasra No. 177, Block-C, Gali No. 19, Khajoori Khas Colony, Shahdara, Delhi. Boundaries: East: Property No. C-1/49, West: Property No. C-1/47, North: Gali, South: Property of others	17-AUG-2023 PHYSICAL E

Date: 18/08/2023 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

MFL INDIA LIMITED CIN: L63040DL1981PLC012730

Registered Office: 94/4, UG-F, UG-9 VILLAGE PATPARGANJ, Delhi-110091 Tell No: 011-32076767, E-mail: helpdesk@mflindia.in, Website: http://www.mflindia.info EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

Particulars	June 30, 2023 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)	June 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
Total income from operations	14,08,83,670	11,48,30,264	13,60,000	13,80,14,879
Total Expenses	14,58,53,777	11,42,34,727	1,23,050	13,79,74,453
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	49,70,107	5,95,536	2,36,950	40,425
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	49,70,107	5,95,536	2,36,950	40,425
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	49,70,107	5,95,536	2,36,950	40,425
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14,08,83,670	11,48,30,264	13,60,000	13,80,14,879
Equity Share Capital	36,02,92,000	36,02,92.000	36,02,92,000	36,02,92,000
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)			5	-
	Total Expenses Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.)	Total income from operations 14,08,83,670 Total Expenses 14,58,53,777 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 14,08,83,670 Equity Share Capital 36,02,92,000 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year - Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.) -	Total income from operations 14,08,83,670 11,48,30,264 Total Expenses 14,58,53,777 11,42,34,727 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 14,08,83,670 11,48,30,264 Equity Share Capital 36,02,92,000 36,02,92,000 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	Total income from operations 14,08,83,670 11,48,30,264 13,60,000 Total Expenses 14,58,53,777 11,42,34,727 1,23,050 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 2,36,950 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 2,36,950 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 2,36,950 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 49,70,107 5,95,536 2,36,950 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 14,08,83,670 11,48,30,264 13,60,000 Equity Share Capital 36,02,92,000 36,02,92,000 36,02,92,000 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

Notes:

Place: Delhi

Date: 14.08.2023

1. The above Unaudited Financial Results reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results Filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The full format of the Quarterly and year ended financial results are available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company website i.e. www.mflindia.info.

For MFL India Limited Anil Thukral

(Figures in Rs.)

Year Ended

(Director) DIN: 01168540

Quarter Ended Quarter Ended Quarter Ended



GRAVITA INDIA LTD.

Diggi-Malpura Road, Tehsil: Phagi, Jaipur- 303 904, Raj. (INDIA) Phone: +91-141-2623266, 2622697 Web: www.gravitaindia.com CIN:- L29308RJ1992PLC006870

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Gravita India Limited ("the Company") will be held on Monday, 11th September, 2023 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated Thursday 17th August, 2023 in compliance with the applicable provision of Companies Act 2013 ("the Act") and Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 02/2022 and 10/2022 dated 08th April, 2020; 13th April, 2020; 05th May, 2020;13th January 2021 14th December, 2021; 05th May, 2022 and 28th December, 2022 respectively and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars").

Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-2023 have been sent in electronic mode to the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participants(s), unless any member has requested for a physical copy of the same. Members may note that the notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be available on the Company's website at www.gravitaindia.com, website of Stock exchanges i.e. BSE Limited and National stock exchange of India Ltd. i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services of India Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

The register of members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Tuesday, 05th September, 2023 to Monday, 11th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Pursuant to the provision of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management

and Administration) Rules 2014 (as amended) and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facilities to its members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") in respect of business to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means ("remote e-voting").

In this regard, the Members are hereby further informed that: The remote e-voting period shall start at Friday, 08th September, 2023 at 09:00 A.M. (IST) and

end at Sunday, 10th September, 2023 at 05:00 P.M. (IST) remote E-Voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Monday, 04th September 2023 may cast their vote electronically. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Monday, 04th September 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or E-Voting at the AGM. The detailed procedure/instruction for remote E-Voting and e-voting at the AGM are contained in the Notice of c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after

sending of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com mentioning their demat account number/folio number, PAN, name and registered address. However, if he/she is already registered with CDSL for remote E-Voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. Members who have not cast their vote through remote E-Voting and are present in the AGM

through VC/OAVM shall be eligible to vote through E-Voting at the AGM. Shareholders who have voted through Remote E-Voting will also be eligible to attend the

meeting. However, they will not be eligible to vote through E-Voting at the meeting. Process for those shareholders whose email addresses are not registered with the depositories

for obtaining login credentials for E-Voting for the resolutions proposed in this notice: For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of

shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to i.e. shyam.kumar@kfintech.com and get the same registered. For Demat shareholders- Please update your email id & mobile no. with your respective

Depository Participant (DP). For Individual Demat shareholders- Please update your email id & mobile no. with your

respective Depository Participant (DP) which is mandatory while E-Voting & joining virtual meetings through Depository. The company/RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above

mentioned shareholders. For any grievances pertaining to the E-Voting facility, the members may visit FAQ's section and

E-Voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013. By order of the Board of Directors

> Company Secretary & Compliance Officer FCS:-9984

For Gravita India Limited

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL. NEW DELHI BENCH

Company Petition No. (CAA)-46ND)/2023 Connected With

C.P. CAA 77 (ND)/2022

In the matter of Section 230, 231 and 232 of the Companies Act, 2013

In the matter of Amalgamation of the IBH Print and Bind Private Limited (Transferor Company) having their Registered office at 1984 A. Gali No. 16. Panday Road, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032 , Wegmans House, 21 Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi - 110092, with Ramshila Paper Resources Private Limited (Transferee Company) having its Registered office at 25-A/11, Vishwas Nagar, Shahdara, delhi-110032. Petition regarding sanction of Scheme of Amalgamation under Section

Notice of Petition:

Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for approving

230 to 232 of the Companies Act, 2013

the Scheme of Amalgamation of IBH Print and Bind Private Limited (Transferor Company) with Ramshila Paper Resources Private Limited (Transferee Company) was presented by Mr. Manoj Kumar Garg (Advocate for the Petitioners) on 30.06.2023 which was listed on 07.07.2023, when Notice was issued and the said Petition is now fixed for hearing before the Member, National Company Law Tribunal, Court No. VI at New Delhi on 21.09.2023. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send a Notice of his/her intention to the Petitioner's Advocate with his name and address so as to reach the Petitioner's Advocate not later than 2 days before the date fixed for the hearing of the said Petition. In case any person wishes to oppose the said Petition, the grounds of the opposition or a copy of your affidavit should be furnished along with the notice of opposition. A copy of the Petition will be furnished by the under mentioned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

> Petitioners Through

> > Manoj Kumar Garg Advocate for the Petitioners

Place: New Delhi GARG & ASSOCIATES Dated: 17.08.2023 E-205 (LGF), Greater Kailash, Part - II New Delhi-110048.

FORM G (RE-ISSUED)

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR AZAM RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED OPERATING IN MANUFACTURING OF SLIPPERS & SHOES, AT GORAKHPUR (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS Azam Rubber Products Private Limited Name of the corporate debtor.

	Hame State Corporate Gastron	(CIN: U19201UP1994PTC016709)
2.	Address of the registered office	AL 9, Sector 13, GIDA Industrial Area, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273209
3.	URL of website	NA .
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	AL 9, Sector 13, GIDA Industrial Area, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273209
5.	Installed capacity of main products/ services	Manufacturing of rubber slippers, EVA slippers and Sandals, Shoes etc with an installed capacity of 1,25,000 pair per day
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Turnover of Rs.40.68 crores as on 31.03.2022
7.	Number of employees/workmen	340
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Details can be sought through email at: azamrubber.ibc@gmail.com
g.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought through email at: azamrubber.ibo@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	02-09-2023
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	07-09-2023
12	Last date for submission of objections to provisional list	12-09-2023
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	

azamrubber.ibc@gmail.com Rajeev Ranjan Singh Resolution Professional IBBI/IPA-002/IP-N00707/2018-2019/12418 AFA valid upto: 96.11.2023 IBBI Reg. address: Flat No. 14049, 16 Avenue, Gaur City-2, Greater Noida West,

Date: 17.08.2023 Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201310 Place: NOIDA, U.P. azamrubber.ibc@gmail.com, ip.rajeevsingh@gmail.com

Process email id to submit EOI

Companies Act, 2013.

PMC FINCORP LIMITED CIN: L27109UP1985PLC006998

Regd. Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur - 244901, U.P. Corp. Office: 201 & 202, 2nd Floor, Rattan Jyoti Building, 18, Rajendra Place, New Delhi-110008 Ph.: - 011- 47631025, 26, 27; E-mail: compliances@pmcfincorp.com website: www.pmcfincorp.com

Dear Member(s). NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members at PMC

NOTICE TO THE MEMBERS WITH RESPECT TO THE 38" ANNUAL GENERAL MEETING

Incorp Limited ("the Company") will be held on Thursday September 14, 2023 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OVAM") to ransaction the business as set out in the Notice of the AGM which will be emailed to the members

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide its circular no.10/2022 dated December 28, 2022 read together with general circular nos. 20/2020, 21/2021 and 02/2022 dated May 5, 2020. December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars"). ermitted convening the Annual General Meeting ("AGM) due in the Year 2023 through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common Venus. Accordingly, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the aforesaid Circulars and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI isting Regulations), the 38th AGM will be held through VC/ DAVM and the members can attend

and participate in this AGM through VC/OAVM only. The VC/OAVM Facility is being available by the Company from National Securities Depository Limited ("NSDL"). The Instructions for attending the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the AGM and Attendance of the member through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the

Electronic Copy of 38th AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2022-23. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, the Notice of the 38th AGM along with the Annual Report for the Financial

Year 2022-23 ("Annual Report") will be sent only by Electronic mode to those members whose

email address are registered with the Company/Depository Participant. The Notice of the 38th AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the website of the Company at www.pmcfincorp.com and website of the stock exchange where equity shares of the Company are listed i.e. BSE limited at www.bseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Appeal to Members to Registered their e-mail ID and KYC Details:

Shareholders who have still not registered their E-mail ID are requested to get their E-Mail ID egistered as follows

Such Shareholders are requested to registered there E-mail ID with the In case shares Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company viz. Indus are held in Portfolio Private Limited by sending request to Company RTA on physical mode rs.kushwaha@indusinvest.com or the Company at Investorrelations@pmcfincorp.com. The said request be accompanied with Form ISR-I for KYC updation.

Such Shareholders are requested to register their E-mail ID with relevant. Depository Participant(s). are held in temat mode n case of any queries difficulties in registering the &-mall address, Shareholders may write to RTA

it'rs.kushwaha@indusinvest.com or to the Company at Investorrelations@pmcfincorp.com. Those physical shareholders who have not yet submitted Form ISR-I, ISR-2, SH-13/SH-14 are requested to Submit the same to RTA/Companies at earliest. Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode are requested to ensure that aforesaid KYC details and

nomination are updated with their depository participant. Remote E-Voting, E-voting at AGM and Manner of procuring login ID and password The Company is providing the facility of 'remote E-voting' for all Members of the Company to

enable them to cast their votes electronically, on all resolutions mentioned in the notice of the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Company and for e-voting during the AGM (collectively referred as "e-Voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limned ('NSDL'), for providing the E-voting facility to the members of the Company. The instructions for e-voting by members holding shares in physical form, dematerialized form and those members who have not registered their email ids will be provided in the Notice of the

Shareholders whose Email IDs are already registered with the Company/Depository, are requested to follow the Instructions for e-voting as will be provided in the Notice of the AGM. Shareholders whose Email IDs are not registered with the Company / Depository Participant are requested to follow below process for procuring User ID and Password for E-Voting:

 A) In case shares are held in physical mode Please provide Folio No., Name of shareholder. scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Indus Portfolio Private Limited (RTA) at rs.kushwaha@indusinvest.com In case shares are held in demat mode please provide sign copy of request letter mentioned

DPID-CLID, Name self-attested copy of PAN card/Aadhaar Card/any other address proof by email to Indus Portfolio Private Limited (RTA) at rs.kushwaha@indusinvest.com Alliteratively member may send an e-mail request to evoing@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (A) or (B) as the case maybe.

he Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 08, 2023 to September 14, 2023 (both days Inclusive) for the 38th Annual By Order of the Board of Directors

FOR PMC FINCORP LIMITED Kailash

(Company Secretary) M. No.: A51199

New Delhi

Place: New Delhi

General Meeting.

Date : August 17, 2023

वेतीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति वित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (वक्त नियम) से नियम 3(१) हाथ पटिल प्रतिभृति हिंत प्रवर्तन अधिनियम् 2002 (उक्त अधिनियम्) की धारा 152) के तहत । उक्त नियमों के निवम 5 के सा वित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल डॉम फाइनेंस लिकिट आईआईएफएस एवएफएस) (पूर्व में इविया इंकोसाइन हाउसिंग काइनेंस सिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के अधिकृत अधिकारी वधारकर्ता (ओ) को, उन्हें जारी संबंधित गांग नीटिश (नी) में दक्तिस्तित साथि को बुकाने के लिए वक्त अधिनियम की धार 3(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। उपरोक्त के संबंध में, ऋगी को एक बार पुन्त नोटिस दिया जाता है कि इस नोटि । प्रकाशन से 85 दिनों के भीतर, नीचे दी गई शक्षि, साथ में किमांड निटिस की तारीख (कारीखीं) से भूगतान की तिथि तक रविष्यगत ब्याज का भूगतान करें। ऋगी (ओं) का विवरण, किगांड नोटिस की तारीख़ की देय राशि और ऋग राशि के पुनर्भृगतान हे लिए दी गई प्रतिभृति निम्नानुसार है:

- ऋणी(ओं) / गारंटर (तें) का नाम	नांग सूचना दिनांक और राशि	शतिपूरि संपत्ति (अथत संपत्ति) का विवस्य
श्री मगोद शुक्ता श्रीमती रश्मी देवी (संभावना सं. इ.10560730)	94 এবংল 2023 ত.17,16,546,00 / - (স্বাস্ট বোৰা মীলই ইনোৰ ফৰ বী ডিয়ালীয়া ক্ষমী নাম)	नापति का यह सामाता हिस्सा और अंक प्लॉट में सी अ हीएलएक अंकुर पिहार लोगी गाजियाबाद-201010 घर स्थित पत्तेट गं. यूजीएक-2, कारफेट एरिया, गच्छेत : 575 वर्ग पूट, पिछी योग्य क्षेत्र को नाच 828 वर्ग पूट, टाइप एमआईजी, ऊपरी गूतल जिंगा छत को पाहिमी और, मीछे का आर एक एस.।
जी पुशील चुनार	10 3/1/(1/ 2023	र्श्वपति का यह सभी दुकता और जंश : गांव विदायुर जवारी की

रम् वलीय सावर हजार दो जी सैताशीस रुपये गाउ) 110059 में श्रीक राम पार्क के रूप में जाना जाता है में विधा II.10218224) के बिना दुसारी मंजिल, भूगि क्षेत्र की गाय 540 वर्ग पूर, कारपेट क्षेत्र की माप 450 वर्ग फट, निर्मित क्षेत्र की माप 486 वर्ग फुट रेटफट क्षेत्र में एक सामान्य हैचवैक कार पार्किंग स्थान के साध रामान्य लीडियाँ, प्रवेश हार और आम उपयोग लविशएं अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों से तहत, पूरी तरह से उधारकर्ताओं से जोखिम, लागत और परिनामों पर

उपरोक्त प्रतिनति संपत्तियों के खिलाक कार्यवाही हेतू आने बढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपमा शास्त्रा कार्याल रें अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें. प्लॉट नंबर 30 / 30ई, कपरी शूतल, मुख्य किवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोज, जगुआर शोसम है बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली / कार्यालय खंख्या 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्टी टॉवर, फॉट खंख्य मी—1, सेक्टर—4 वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201010 या क कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, फॉट ने 98, उद्योग विहार फंज-IV गुरुगांव, हरियाण। हस्ता- अधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएकएल होन फाइनेंस सिमिटेन स्थानः दिल्ली, दिनांकः 18.08.2023

श्री सचिन जैन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश—02 के न्यायालय में कमरा नंबर 605, 6वीं मंजिल, द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली

श्रीमती चार्वी भारतीया

सुनवाई की तिथि : 03.10.2023 सरक्षक और प्रतिपाल्य आधानयम, 1890 के तहत उद्धरण

जबकि, याचिकाकर्ता श्रीमती चार्वी भारतीय पत्नी स्वर्गीय श्री शोमित बंसल,निवासी ई-513, न्यु आरोही अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 13 सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा अपनी नाबालिंग बेटी नाम धृति बसंल पुत्री स्वर्गीय श्री शोभित बंसल, निवासी ई–513, न्यू आरोही अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के लिए अमिभावक की नियक्ति की मांग करने और नीचे उल्लिखित संपत्ति के सम्बन्ध में नाबालिंग के हिस्से को छोडने / स्थानांतरित करने के लिए नाबालिंग की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत/अनुमति देने के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की घारा 8, 9 और 10 तथा हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की घारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है।

1. संपत्ति सं. 851, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-251001 2. संपत्ति सं. 824, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251001

3. प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली-110077 पर स्थित फ्लैट नंबर ई-513, पांचवीं मंजिल, न्यू आरोही को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वाली संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर है।

जबकि मामला सुनवाई के लिए 03.10.2023 को तय किया गया है, इस सम्बन्ध में नोटिस दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त मतक की संपत्ति के प्रशासन में कोई रुचि है, वह चाहे तो 03.10.2023 को इस अदालत में उपस्थित हो सकता / हो सकती है और संरक्षक-व्यक्ति और नाबालिंग की संपत्ति के लिए नियुक्ति की कार्यवाही देख सकता है दिनांक 10/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर से दिया गया।

(सचिन जैन) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-02 दक्षिण पश्चिम जिला, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली



कार्यालय के अधिकारी-॥ ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून डिमांड नोटिस

(ऋण वस्तुली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुमाग 25 से 28 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस) आए.सी / 554 / 2022 दिनांक: 27.06.2023

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसस परवेज अली एवं अन्य

सीडी. 1: परवेज अली पुत्र श्री अनवर अली, निवासी: मियां कॉलोनी, आजाद नगर,

सीडी. 2: श्रीमती मुमताज पत्नी श्री परवेज अलीं, निवासीः मियां कॉलोनी, आजाद नगर,

सीबी, 3: काफिल अहमद पत्र रवा श्री सलीम जहमद, निवासी: मकान नंव 86, गली नंव 4

पुलिस चौकी के पीछे, मुरादाबाद, उलार प्रदेश। यह सुचित करना है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए रिकवरी

प्रमाणपत्र के अनुसार, औए/187/2022 में स0 24,35,256.00 (स0 चीवीस लाग्र पैतीस हजार दी सी छप्पन रूपये मात्र) के साथ-साथ पेडेंट लाइट और दिनांक 28.03.2022 से भविष्य के ब्यान के साथ @7.40% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से लगने वाला ब्याज एवं अन्य खर्चे बुकता होने तक बकाया है और लागत रू0 25,000.00 (रूपये पर्व्वास हजार मात्र) आपके (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से /पूर्ण /सीमित) विरुद्ध हो गए हैं।

2. आपको सूधना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राजि का भूगतान करे लिए निर्देश देता है जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसुली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार

3. आपको यह आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले आपकी सम्पत्ति

के विवरण को एक हलफनामे पर पोषित किया जाए। आपको आगे कि कार्यवाही के लिए दिनांक 29.08.2023 को सुबह 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरी वे

सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।

 उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए मी उत्तरादापी होंगे। इस प्रमाण पत्र /निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देव ब्याज राशि सभी लागत.

बी) इस सचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देव राशि की वसली हेत प्रक्रिया में किया गया है।

वसुली अधिकारी--॥ अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 27.06.2023 से जारी।

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादन

अन्ना इफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

संजय प्लेस, आगरा-282002

CIN-L65910UP1993PLC070612 **ईमेल आईडी:** annainfra@gmail.com. फोन नं: 0562-4060806,

वेबसाइट:www.annainfrastructures.com 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आन बैठक ("एजीएम") **सोमवार,11 सितंबर, 2023** को दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी), कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 31वीं एजीएम दिनांक 14 अगस्त, 2023 वर्त सुबना में बताए गए सामान्य और विशेष व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। उर नोटिस प्रॉक्सी फोर्म, उपस्थिति पर्नी और वितीय विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट जन सदस्यों को भेज दिर

गया है जिनके पास पंजीकत ई-मेल पता है। यह उपरोक्त उल्लिखित कंपनी की वेबलाइट पर भी उपलब्ध है वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण और वेबसाइट पर प्रसार एजीएम की सचना और विलीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन श्रेयरधारकों / सदस्यों व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल कर दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / हिपॉजिटरी पार्टिसिपेट ('डीपी') / प्रासंगिर

परिपन्नों के अनपालन में रजिस्टार और टालफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकत हैं। इसके साथ ही, कंपनी की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट की एक इलेक्ट्रोनिक प्रति, जिसमें अन्य वातार साध-साथ एजीएम की ख़बना भी शामिल हैं, कंपनी की वेबसाइट www.annainfrastructures.com, स्टींब एक्सबेंजों जहां कंपनी के इविवटी शेयर सुधीबद्ध हैं. बीएसई लिमिटेंड www.bscindia.com पर तथा कंपन

के एजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी बीटल फाइनेशियल एंड कंप्युटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइ beetal@beetalfinancial.com पर उपलब्ध है।

एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर दक मंगलवार 05/09/2023 सोमवार 11/09/2023 (बोनों बिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

नी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्राक्यानों के साथ परित लाग नियमों भारतीय कंपनी सचिव संस्था ्रद्वारा जारी सामान्य डेंटको पर सचियीय मानक−2 तथा भारतीय प्रतिमृति एव विनिमय डोर्ड (सुचीबद्धता दायित्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने शेयरकारकों / सदस्यों को एजीएम में होने वाले कार्यवाही के संबंध में एजीएम के दौरान 'स्मिट ई-वॉटिंग' और 'ई-बोटिंग' के माध्यम से एजीएम से पहले ई-बोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए 'सीडीएसएल ई-वोटिंग प्लेटकॉर्म (यार्न

www.evotingindia.com)' नियुक्त किया है। ई-वोटिंग का विवरण नीचे दिया गया है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थ मालिकों के एजिस्टर में दर्ज है, केवल कहीएजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने व साथ-साथ वोटिंग का भी हकदार होगा। रिमोट ई-वोटिंग

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 06 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और रविवार, 10 सितंबर, 2023 को शाम 500 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए 'सीडीएसएल ई-बोटिंग प्लेटफॉर्म(यार्ग www.evotingindia.com) द्वारा ई-वोटिंग मॉडब्ल अक्षम कर दिया जाएगा।

• सदस्यों का वोटिंग अभिकार कट-ऑफ तिथि यांनी सोमवार 04/09/2023 को कंपनी की भुगतान की गई इविवटी शेयर पूजी में जनके शेवरों के अनुपात में होगा।

• जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट खाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र हों-और उनकी उपस्थिति कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा, इालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम दोबारा बोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य वन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को शेयर रखता है, वह 31वीं एजीएम की सुचना में विवरणानुसार रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन

हालींकि, यदि शेयरवारक जो पहले से ही सीडीएसएल की ईजी/ ईजीएस्ट सुविवा वा एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो वे अपने मीजुदा युजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगि कर सकते हैं।

विनांकः 17.08.2023

स्थान : आगरा

रिमोट ई-बोटिंग सुविधा के अलावा, सदस्यों को एजीएन में बोट करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं खाला है, वे एजीएम में बोट करने के पात्र होंगे।

ई-मेल पते/मोबाइल नंबर का पंजीकरणः

जो शेयरधारक जपना ईमेल पता / मोबाइल नंबर पंजीकत करना चाहते हैं उनसे निम्मलिखित निर्देशों का पाल-

करने का अनुरोध किया जाता है: • इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए-अपने ढीपी द्वारा खलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने ढीमेट खाते में विवरण पंजीकत / अपडेट करें।

मीतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए-कंपनी के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी

कंपनी की बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर-में विवरण पंजीकृत/अपबेट करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत/प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए, शेक्स्पारकों अनुरोध है कि वे बीटल फाइनेशियल एंड कंप्युटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेन,शेयर राजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) से टेलीफोन नंबर-011-29961281-84 पर संपर्क करें या जारटीए व beetal@beetalfinancial.com पर लिखे।

के लिए और उनकी ओर से

दिनांक : 17-06-2023

स्थान : नई दिल्ली

अन्ना इंक्रास्ट्रक्वर्स लिमिटेड

(अएशा जैन महाजन) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



नैक द्वारा ग्रेड A++ मान्यता प्राप्त

विज्ञापन : आर/एफ.150/भर्ती/2023/1542

गैर–शैक्षणिक पदों पर भर्ती

विभिन्न गैर-शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती पर नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित है।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.curaj.ac.in देखें। कुलसचिव (प्रभारी) CBC 21316/12/0007/2324

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) निवमावली, 2014 के निवम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम 5 के क्लॉज (ए) के मामले में

वेन्द्रर फाइनास एंड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः एसएफ 2 एवं 4, दूसरा तल, रिषम आईपीएक्स मॉल, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110092, में है, के मामले में

एतदृहारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तेलंगना राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 21 मार्च, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरिंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

एसएफ 2 एवं 4, दूसरा तल, रिषभ आईपीएक्स मॉल, पटपड्डगंज, नई दिल्ली-110092 कृते, वेन्चर फाइनांस एंड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ता./ तिथि: 18.08.2023 पदम्जा बदलामणि स्थानः नई दिस्स्नी प्रबंध निदेशक

CAPITAL

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनीस लिमिटेड

DIN: 01958010

गुजरात-362266 शास्त्रा कार्यालव: आदित्य बिग्ला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड, डी-17, बेसमेंट, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301

परिशिष्ट IV [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1) देखें] कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.05.2021 जारी कर ऋणधारकों श्रीमती गरिमा सिंह, श्रीमती महिमा सिंह एवं मैक माई ट्रिप इंडिया प्रा. लि. को उक्त सूचना की प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि रु. 51,72,549.79/- (रु. इक्यावन लाख बहतर हजार पांच सौ उन्चास पैसे उन्चासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 14 अगस्त, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय क. 51,72,549,79/- (क. इक्यावन लाख बहत्तर हजार पांच सौ उन्चास पैसे उन्यासी मात्र) तथा उस पर व्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण प्रतिभत सम्पत्तिः फ्लैट नं, 1203ए, 13वां तल, टावर सी बी 4, कैप्टाउन, जीएच-01/ए, सेक्टर

तिथि: 14.08.2023 स्थानः नोएडा

74, नोएडा, उ.प.-201301 का सभी भाग तथा हिस्सा।

प्राधिकृत अधिकारी आदित्व बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

तरगिनी इवेस्टमेंट्स लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1982PLC013486% पंजीकृत कार्यालय : के-37/ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के समीप, नई दिल्ली-110048, दूरभाष : 011-42657135 वेबसाइट : www.taranginiinvestmentsltd.com, ई—मेल : tarangini0123@gmail.com

वाषिक सामान्य बैठक की सचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन सोमवार 11 सितंबर 2023 को अपराहन 3.00 बजे के-37 / ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी

मेट्रो स्टेशन के समीप, नई दिल्ली-110048 में किया जायेगा। उपस्थिति पर्यो और प्रोंक्सी फोंर्म सहित बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां, जिसमें 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त हए वर्ष की समय-सारणी और उस पर निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित के साथ बैठक में किए जाने वाले सामान्य व्यवसायों को निर्धारित किया गया है, उन सदस्यों को भेज दी गयी हैं, जिन्होंने कंपनी / कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है और डाक द्वारा उनके संबंधित पंजीकृत पते पर भेज दी गई है तथा उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित कर दी गयी है जिन्होंने अपना ईमेल

सदस्यों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि बैठक की सुबना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.taranginiinvestmentsltd.com) पर उपलब्ध हैं और तक्त दस्तावेजों की प्रतियां बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार तक) पर यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध हैं।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी को वैध उहराने वाला उपकरण बैठक शुरू होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

सदस्यों को एतदद्वारा सुवित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशो, थित, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के यिनियमन 44 के अनुपालन में कंपनी मतपत्र के माध्यम से बैठक में मतदान के सामान्य तरीके के अलावा रिमोट ई-वॉटिंग के माध्यम से अपने सदस्यों को सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को अपराह 03.00 बजे के-37 / ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110048 पर होने वाली वार्षिक आम बैठक ("बैठक") में पारित किए जाने हेत् प्रस्तायित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित संचार जिसमें अन्य बातों के साध-साध यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा बैठक बुलाने की सूचना की एक प्रति, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म शामिल है, सभी सदस्यों को, जैसा भी मामला हो, भेज दिया/ईमेल कर दिया गया है। यह संचार और बैठक की सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.taranginiinvestmentsltd.com पर और एनएसढीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर उपलब्ध है।

यह रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 8 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और 10 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी, उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं

वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 02 सितंबर, 2023 को सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही बैठक में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का प्राप्त करने के अधिकारी होंगे कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ

तिथि अर्थात् 02 सितंबर 2023 को शेयर रखता है. वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, किंतू

उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी सदस्य, जो मतदान करने का अधिकारी है, किंतु उसने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, यह सुचना में विनिर्दिष्ट सभी व्यवसायों के लिए भौतिक मतपत्र के महत्यम से बैठक में मतदान कर सकता है। सदस्यों को अपने वोट डालने

के लिए बैठक स्थल पर मतपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते तरंगिनी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड हस्ता /-(पंकज खेतान)

ढीआईएन : 01567415



शैक्षिक संचार संकाय श्रीकिक समार समाज आईपूरती परिसर, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 दूरमाय : 011-24126418-19-20, फॅक्स : 011-24126416



वेबसाइट : www.cec.nic.in फा.सं. सीईसी / एच.डब्ल्यू. / प्रॉक्यूरमें ट ऑप्टिकल डिस्क-50 जीबी/2021 दिनांक 10.08.2023

निविदा आमंत्रण सूचना विषयः एक्सडीकैम एचडी ऑप्टिकल डिस्क कैमकॉर्डर पीडीडब्ल्यू-एफ 800 और एक्सडीकैम एचडी डेक पीडब्ल्युडी-एफ 1600 रिकॉर्डर / प्लेयर के लिए आवश्यक 50 जीबी रीराइटेबल ऑप्टिकल

डिस्क / प्रोफेशनल डिस्क मीडिया की मात्रा−500 नग के प्रॉक्यूरमेंट (खरीद) और आपूर्ति के लिए बोली आमंत्रण। निविदा अधिसूचना संख्या फा.सं. सीईसी / एच.डब्ल्यू / प्रॉक्यूरमेंट ऑप्टिकल डिस्क-50 जीबी / 2021 दिनांक 10.08.2023 में प्रतिमागिता हेतु प्रस्तावित उत्पादों के निविदा विशिष्ट प्राधिकरण प्राप्त मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या वितरणकर्ता / डीलर / सिस्टम इन्टेग्रेटर्स से दो बोली प्रणाली कवर (तकनीकी

और वित्तीय) आमंत्रित किए जाते हैं। मृहरबंद निविदा को "मुख्य प्रशासनिक अधिकारी", शैक्षिक संचार संकाय आई.य.ए.सी. परिसर, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 को निर्धारित दिनांक और समय से पूर्व स्वयं जाकर / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाए या उपरोक्त पते पर स्वयं जाकर सी.ई.सी.. नई दिल्ली के स्वागत कक्ष में निविदा बॉक्स में डाला जाए।

3. पूर्ण निविदा दस्तावेज 18.08.2023 को पूर्वोह्न 9:00 बजे से सीईसी की आधिकारिक वेबसाइट (https://cec.nic.in/cec/tender) और सीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इस निविदा से संबंधित अन्य जानकारी या शुद्धिपत्र सीईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलियों को स्वयं जाकर / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय 08.09.2023 एवं अपराह 2:30 बजे है और बोली (तकनीकी बोली) को उसी दिन 08.09.2023 को अपराह 3:00 बजे खोला जाएगा।

(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सीईसी)



इंडिया एक्सपीसिशन मार्ट लिमिटेड

कायातयः प्लाट नवरः 1; 210 -अटलााटक प्लाजा, दूसरा माजल, स्थानाय शापग सटर, मयुर विहार फेज-।, दिल्ली- 110091, टेलीफोन : +91-120-2328011-20 फैक्स: +91-120-2328010 ईमेल आईडी : cs@indiaexpocentre.com, वेबसाइट : www.indiaexpomart.com शेयरहोल्डर्स को नोटिस

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अदावाकृत लाभांश और इक्विटी शेयर का हस्तांतरण

कंपनी के शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के साथ पठित, यथा संशोधित, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियमों, 2016 के अनुसरण में, वे सभी शेयर जिनके लाभांश (डिविडेंड) लगातार सात वर्षों या अधिक समय के लिए दावारहित हैं, उन्हें 6 नवंबर, 2023 को निवेशक एवं शिक्षा संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') को अंतरित किया जायेगा।

उक्त नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सभी संबंधित शेयरधारकों को पृथक रूप से नोटिस भेजा है जिन्होंने सात लगातार वर्षों तक अपने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है एवं जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के लिए आधीन हैं कंपनी ने शेयरधारकों. जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित होने के लिए आधीन हैं, उनका विवरण अपनी वेबसाइट www.indiaexpomart.com के "निवेशक संबंध अनभाग" के अंतर्गत अपलोड किया है।

इस संबंध में, कपया ध्यान दें कि भौतिक स्वरुप में धारित शेयरों के लिए, एक इप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा एवं आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा। सदस्य दवारा धारित शेयरों का मृल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम में पंजीकत है. स्वतः से रदद माना जाएगा।

यदि कंपनी को नियत तिथि अर्थार्त 6 नवंबर, 2023 को या उससे पूर्व संबंधित सदस्यों से कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो नियम में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए कंपनी, उक्त नियमों की आवश्यकता के अनुसार आगे बिना कोर्ड सचना दिए शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुपालन में आईईपीएफ में अंतरित गैर प्रदत/दावारहित लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण या सहायता के लिए, संबंधित सदस्य (सदस्याँ) कंपनी को उसके कॉरपोरेट कार्यालय, इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड प्लॉट नंबर 23-25 और 27- 29, नॉलेज पार्क- 11, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, 201306 के पते पर लिख सकते हैं या कंपनी को cs@indiaexpocentre.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश से

अन्पम शर्मा

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड

(सीआईएन : L27109UP1985PLC006998) पंजीकृत कार्यालय : बी–10, वीआईपी कॉलोनी, सिविल लाइंस, रामपुर – 244901, उ.प्र. निगमित कार्यालय : 201 एवं 202, द्वितीय तल, रत्तां ज्योति भवन, 18, राजेंद्र प्लेस,

नर्ड दिल्ली--110008 दूरमाष : 011-47631025, 28, 27; ईमेल : compliance@pmcfincorp.com वेबसाइट : www.pmcfincorp.com 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संदर्भ में सदस्यों को सूचना

एसदझारा सचित किया जाता है कि पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड ('दि कंपनी') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन बृहस्पतिवार 14 सितंबर 2022 को मध्या 11.00 बजे (भामा.स.) प वीक्षियों कांग्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य दुश्य-अव्य साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से संपन्न किया जाएगा इस आयोजन में उस एजीएम की खुबना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन किया जाएगा, जो कंपनी के सदस्यों को ईमेल की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने, अपने सामान्य परिपन्न संख्याएं 20/2020, 21/2021 एवं 02/2022 क्रमष्ट दिनांकित 5 मई 2020, 14 दिलंबर 2021 एवं 5 मई 2022 (सामुहिक रूप में 'एमसीए परिपन्नी' के रू में संदर्भित) के साथ पठित अपने परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर 2022 के द्वारा, किसी भी साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के विना वीडियों काफेंसिंग ('वीसी') अथवा अन्य दश्य-अव्य साधन "ओएवीएम") के माध्यम से वर्ष 2023 में नियत वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमित प्रदान की है। तदनसार ही, उपर्यक्त परिपन्नों तथा भारतीय प्रतिभत्ति एवं विनिमय बोर्ड (सचीकरण दायित्व एव प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("संबी सूचीकरण विनियमावली") के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 38वीं एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सपन्न किया जा सकेंगा तथा सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से इस एजीएम

उपस्थित हो सकते हैं और भागीदारी कर सकते है। वीसी /ओएवीएम सुविधा कंपनी द्वारा नेहानल सिक्योरिटीज हिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के अनुदेश, एजीएम की सुबना में उपलब्ध कराए जाएंगे तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्य की उपस्थिति की गणना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के उददेश्यार्थ की जाएगी

38वीं एजीएम सचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की इलेक्टॉनिक प्रति। एमसीए परिपत्रों तथा सेवी परिपत्र स. सेवी/एचओ/सीएफटी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी 2023 के अनुपालन में, विस्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") र साथ 38वीं एजीएम की सुचना कंवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को प्रेषित की जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / दियाँ जिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकत हैं। 38वीं एजीएम की सुबना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23, कंपनी की वेबसाइट www.pmclincorp.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के समत अंश सुवीबद्ध है की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की

ई-मेल आईडी और केवाईसी विवरण पंजीकृत करने के लिए सदस्यों से अपील ऐसे अंशधारकगण जिन्होंने अभी तक अपनी ईमेल आइडी पंजीकृत नहीं की है उनसे अनुरोध है कि वे निम्नानुसार

वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

यदि अंश मौतिक ऐसे अंशधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंश अंतरण अधिकर्ता (आरटीए) प्राक्त्य में धारण उदाहरणार्थ इंडल पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड के लाथ अपनी इंमेल आईडी पंजीकृत कर लें किए गए हैं इस इंतु कंपनी आरटीए को उनकी मेल : rs.kushwaha@indusinvest.com पर अथवा कंपनी को Investorrelations@pmcfincorp.com पर अनुरोध प्रेषित करें। उक्त अनुरोध के साथ कंवाईसी अदातन के लिए फॉर्म आईएसआर सलान डो।

यदि अंश अनीतिक ऐसे अश्वधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित क्रिपॉजिटरी प्रतिभागी(गियाँ) के साथ अपनी इंमेल आईक्री किए गए हैं

यदि ईमेल पतों का पंजीकरण करने के दौरान कोई पूछताछ करनी है या कोई समस्ता उत्पन्न होती है ते अंक्षारकराण आस्टीए को rs.kushwaha@indusinvest.com Investorrelations@pmcfincorp.com पर पत्र लिख सकते हैं।

भौतिक रूप में अंशधारम करनेवाले अंशधारक जिन्होंने फॉर्म आईएसआर- । आईएसआर-2, एसएय-13/एसएय-1

कंपनी अपने रामी कंपनी के सदस्यों को 'रिमोट ई-बोटिंग' की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि सदस्यगण कंपनी

अभी तक जमा नहीं कराया है, ज़नसे अनुसेच है कि ये उनको शीफ़ातिशीफ़ आरटीए/कंपनियों के पास जमा करा दें और जो अंशधारक अमेरिक प्रारूपण में अंशों का धारण किए हुए हैं, उनसे यह सुनिष्टिवत करने का अनुरोध किय जाता है कि वे देख में कि क्या उपर्यक्त केयाईसी विवरण तथा नामांकन उनके विवीधिटरी प्रतिकारी के पास अधारनीकर रिमोट ई-बोटिंग, एजीएम में ई-बोटिंग तथा लॉगिन आईडी एवं गासवर्ड अधिप्राप्ति की प्रथिधि

की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना में संवर्षित समस्त संकल्पों पर तथा एजीएम के दौरान \$-वोटिंग (सामहिक रूप में 'ई-वोटिंग' के रूप में संदर्शित) के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करने सक्षम हो सकें। कंपनी ने कंपनी के सदस्यों को ई-बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेशनल सिक्योरिटीय बिमोजिटरीज जिमिटेड (एनएसबीएल) की सेवाएं जी है। मीतिक व अभीतिक प्रारूपण में अंशों को धारित करनेवाल तथा अभी तक अपनी ईमेल आईखी प्राप्त नहीं कर गए सदस्यों हारा ई-मोटिंग किए जाने हेतु अनुदेश, एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। विन अंशधारकों की इंगेल आईखी कंपनी / विपोजिटरी के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, जनसे अनुरोध है कि

एजीएम की सूचना में जपलब्ध कराए गए अनुसार ई-वोटिंग हेतु अनुदेशों का अनुसरण करें। जिन अंशाधारकों जिनव इंमेज आईक्षी कंपनी / त्रिपॉफिटरी प्रतिमानी के साथ पंजीकृत नहीं है, जनसे अनुरोध हैं कि ये ई—बोटिंग हेतु आवश्यः युगर आईडी एवं पासवर्ड की अधिप्राधित के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें क) मीतिक प्रारूप में अंश धारण किए होने की स्थिति में कृपया फोलियों नं, अंशधारक का नाम, अंश प्रमाणपः (आगे एवं पीछे) की स्कैंड प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैंड प्रति), आधार (आधार कार्ड की

रवय-सत्यापित रकेंड प्रति) की प्रतियां इंगेल द्वारा इंडल पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेज (आरटीए) कं rs.kushwaha@indusinvest.com पर प्रेपित करें। ख) अभौतिक प्रारूप में अंश धारण किए होने की रिथति में कृपवा तस अनुरोध पत्र की इस्ताक्षारित प्रति तपलब्ध कराए किस पर बीपीआईडी-सीएलआईडी वर्णित हो, पैन कार्ड/आधार कार्ड/किसी अन्य पता साध्य की स्वयं-सरवापित प्रति अपने नाम के साथ ईमेल हारा इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की

rs.kushwaha@indusinvest.com पर प्रेषित करें।

दिवांक : 17 अगस्त 2023

स्वान : नई दिल्ली

मैकल्पिक रूप में सभी संबंधित सदस्य, उपर्युक्ता (क) अथवा (ख) बिंदुओं, जैसा भी संदर्ग हो, में वर्णित विवरण उपलब्ध कराकर यूगर आईडी एवं पासवर्ड प्रान्त करने हेतु evoting@nsdl.co.in पर एक ई–मेल अनुरोध प्रेषित कर कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक हेत शुक्रवार 08 सितंबर 2023 से लेकर के 14 सिरांबर 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) एक बंद रहेगी।

> ਰੂਜੇ ਪੀਦਸ਼ਰੀ ਚਿਜ਼ਗੇਂਧੀ ਨਿਸਿਟਿਤ केलाझ

निवेशक मंडल के आवेशानसार

(कंपनी सचिव)

ਦਾ. ਦਾਂ.: ए51199

दिनांक: 18.08.2023

स्थानः फरीदाबाद

OSBI

सर्वसमय माध्यम, कॉरपोरेट सेंटर, तीसरी मंजिल,

वर्ल्ड ट्रेंड केंद्र आर्केड, कफ परेड, मुंबई - 400005

निविदा आमंत्रण सचना

आरएफपी नं. SBI/AC/2023-24/003 दिनाक: 17.08.2023 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुल आउटसोर्स मॉडल (टीओएम) के तहत 13,500 एटीएम की सेवाओं के लिए प्रति सफल लेनदेन आधार दूर पर पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की गई हैं. आरएफपी दस्तावेज बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi, GeM पोर्टल https://gem.gov.in और www.eprocure.gov.in (CPPP पोर्टल) से डाउनलोड किया जा सकता है.

आरएफपी के डाउनलोड का आरंभ : 17.08.2023 को दोपहर 03:00 बजे से

बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 08.09.2023 को दोपहर 03.00 बजे तक. हस्ताक्षर/-

उप महाप्रबंधक (I&R) स्थानः मुंबई दिनांक: 17.08.2023 सर्वसमय माध्यम विभाग

NIIT

त्थानः गुरूग्राम

दिनांक: 17 अगस्त, 2023

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड CIN: U72200HR2001PLC099478 पंजीकृत कार्यासयः प्लॉट नंठ. 🖦 सेक्टर ३२,

इंस्टीद्यूशनल एरिया, गुरूगम – 122001, हरियाणा, भारत वेबसाइट: www.niitmts.com; इंगेल: investors@niitmts.com; फोन: +91 124 429 3000

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 201(2) के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड ("कंपनी") अधिनियम की धारा 196, 197, 198, 203 एवं अन्य लाग् प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित अधिनियम की अनुसूची-5 (वर्तमान में उस पर लागू कोई साविधिक संशोधन या अधिनियमन त्तहित) के अंतर्गत श्री संपर्नेश कृमार लाला (अधिनियम की अनुसूची-5 के प्रावधानों के अनुसार एक अनिवासी मारतीय) को 24 गई. 2023 से प्रमावी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदनामित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है। उपरोक्त नियक्ति को 24 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निर्देशक गंडल द्वारा और 02 अगरत, 2023 को आयोजित डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया

> दीपक बंचस कंपनी सविद

सदस्यता संo.: A11579



सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में दर्शाया गया) जिसका नाम नामालूम, परिवार व पता नामालूम, जो दिनांक 15.08.2023 को किमी. पोल नं. 20/24 डाउन लाईन मुण्डका रेलवे स्टेशन के पास, दिल्ली में मृत पाया गया। इस संदर्भ में एक डीडी नं. 13ए दिनांक 15.08.2023 को थाना सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेरिपोर्ट दर्जहै।

पहनावाः हल्के हरे रंग की लाईनदार कमीज व नीले रंग की पेन्ट पहने

मो : 8750871308

DP/9210/Rly/2023

निम्नलिखित पते या टेलीफोन नंबर पर सुचित करें-थाना प्रमारी वेबसाइट: http://cbi.nic.in थानाः सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, दिल्ली फोन: 011-28711697 ई-मेल: cic@cbi.gov.in

ਟੇਰੀ. ਜ: 011-24368638/24368641 फैक्स नं: 011-24368639

डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग

भारत 121003 दरभाष: +91 129 4360445. ईमेलः cs@dmrengineering.net वेबसाइटः www.dmrengineering.net, CIN: L74900HR2009PLC039823

एतदहारा सचना दी जाती है कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालर ('एमसीए') के परिपत्रों दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 05 मई, 2022, 05 मई, 2020, 17 अप्रैल 2020. 08 अप्रैल, 2020 और सेबी परिपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2023, 13 मई, 2022 और 1 मई, 2020 और अन्य लागु परिपन्न के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुपालन में 14वीं एजीएम की सचन

में निर्धारित व्यवसायों के लेनदेन के लिए शुक्रवार, 08 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बर्ज

किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीट देने के अधिकार का प्रयोग

('एनएसडीएल') हारा प्रदान किया जाएगा। सदस्यों को इसके हारा सचित किया जाता है किः एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00

इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा 2. कट-ऑफ तिथि यानी शक्रवार. 01 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइजेशन फॉर्म में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ही एजीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई

हैं, उसे नोटिस में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लेना होगा जो एजीएम की लॉगइन आईडी औ पासवर्ड कंपनी की वेबसाइट www.dmrengineering.net पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी क

सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 01 सितंबर, 2023 तक शेयर रखत

नोटिस में प्रदान किया गया है। 5. एक सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार क

6. सदस्य द्वारा एक बार वीट डालने के बाद उसे बाद में बदलने और दोबारा डालने की अनुमर्ति 7. एजीएम की सुचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.dmrengineering.ne

वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड के एसएमई प्लेटफॉर्म https://www.bsesme.com/ प भी उपलब्ध होगी। 8. लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से, यदि एजीएम में घोषणा की जाती है, तो वे सदस्य जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ, इलेक्टॉनिक मोड में शेयरों के मामले में, और कंपनी वे

रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट के साथ अपने बैंक खाते प्रस्तत/अद्यतन कर दिए हैं, यनि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं. तो कंपनी द्वारा धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा द जाएगी। सदस्यों के बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता या गैर-अद्यतन के मामले में, कंपनी ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंट/चेक भेजकर, जैसा भी मामला हो, लाभांश का भुगतान सुनिश्चित ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य कृपया एजीएम के नोटिस में "नोटस"

मामले में, शेयरधारक www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें। सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी श्री रविंदर कुमान भाटिया (फोन नंबर: दुरभाष: +91 129 4360445; ईमेल: cs@dmrengineering.ne से भी संपर्क कर सकते हैं।

10. नोटिस यह भी दिया गया है कि सेबी लिस्टिंग विनियम और अन्य लागू कानूनों के विनियमन 42 के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑतिम लाभांश के लिए सदस्यें की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 01 सितंबर 2023 होगी।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com

MANAGED TRAINING SERVICES

कृते एनजाईवाईटी लर्निंग सिस्टन्स लिमिटेड



जिसका हलिया नीचे दिया गया है:-लिंगः पुरुष, आयुः लगभग 40-50 वर्ष, कदः 5' 6" इंच, रंगः गेंहुआ,

मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग रखने वाला कोई भी व्यक्ति

एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 473, सेक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा,

14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली हैं। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 14वीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से गुरुवा 17 अगस्त, 2023 को भेज दी गई हैं, जिनके नाम सोमवार 14 अगस्त 2023 को व्यावसायिव समय की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों रजिस्टर में दिखाई देते हैं और जिनके ईमेल पर कंपनी/कंपनी रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार शेयरधारकों को उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी ज रही हैं। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') के विनियम 44 और अन्य लाग कानून के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम रं

करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड बजे आईएसटी से शुरू होगी और गुरुवार, 07 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी

वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

4. वे सदस्य जिनके पास कट-ऑफ तिथि पर कंपनी के शेयर हैं और उन्होंने एजीएम से पहलें अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। एजीएम में मतदान का तरीका एजीएम व

प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचेंज क

अनुभाग देख सकते हैं। ई-वोटिंग प्रक्रिया या एजीएम में वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न वे

कते डीएमआर हाइडोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्टक्चर्स लिमिटेड

रविंदर कुमार भाटिया

निदेशक मंडल के आदेश से

पहचान की अपील